



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1982/अग्रहायण 9, 1904

No. 360]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 1982/AGRAHAYANA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

सं० 262/82-सोमा शुल्क

सां० कां० नि० 726(अ):—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 208/81-सीमाशुल्क तारीख 22 नवम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में:—

(1) “क जीवनवायी शोधधि द्रव्य या शोधध” शीर्षक के नीचे

(i) सब सं० 32 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“32क बिलडामास्तीव इंजेक्शन।”;

(ii) मद सं० 46 के स्थान पर निम्नलिखित सब रखी जाएगी, अर्थात्:—

“46 बिसपिरैमिड फास्फेड इंजेक्शन/कैप्सूल / टैबलेट।”;

iii) सब सं० 57 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“57 क निष्कृत रेबीज वैक्सीन (मानव डिप्लाइट सेल)।”;

(iv) सब सं० 73 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“73क मीजिल्ट वैक्सीन।”;

(v) मद सं० 80 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“80 क सनुकारक के साथ मीट्रोनामाइड आयल।”

(vi) सब सं० 86 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“86क नाफेडाइपाईन कैप्सूल।”;

(vii) मद सं० 101 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“101 क प्रोजेसीन टैबलेट।”;

(viii) सब सं० 118 के स्थान पर निम्नलिखित सब रखी जाएगी, अर्थात्:—

“118 मुशीनाइल कोलाइन क्लोराइड ब्रोमाइड इंजेक्शन।”;

(ix) सब सं० 122 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“122क” टिमोलोल मेसिएट आई के ड्राप।”;

(x) सब सं० 125 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“125 क यूरोफिनास इंजेक्शन।”;

(2) "श्व जीवनदायी उपस्कर" शीर्षक के नीचे।

(क) मद सं० 5 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्—

"5 मरीडिन बायु प्रथमन साधित्र और अन्य प्रथमन उपस्कर।"

(ख) मद सं० 8 के प्रारम्भिक भाग में "हेमोडायलिसर और उसके संसृष्ट निम्नलिखित से" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात्—

"8 हेमोडायलिसर और उसके साथ उपयोग के लिए निम्नलिखित मद्ये—";

(ग) मद सं० 15 और 35 का लोप किया जाएगा,

(घ) मद सं० 22 के पश्चात् निम्नलिखित मद अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"22क, कोलोस्टोमी, इलीओस्टोमी, यूरोस्टोस्टोमी आदि इसियल कड्यूट यूरोस्टोमी स्टोमा मामलों के सन्ध में कार्य करने के लिए आस्टोमी उत्पाद (साधित्र) अर्थात्, बैले, बेल्ट, आसजक सील या डिस्क या रोल आसजक रिभूबेर, अमरोधिका माइक्रोपोर श्वय चिकित्सीय फीले, बेला को बद करने वाले क्लैप कराया सील पेंस्ट या पाउडर, मिचर्ड सेट, प्लास्टिक या रबर फेम्पनेट, फूलेज, पुरुष या स्त्री के यूरीनरी इन्कान्टीनेन्सी सेट, अम जेल, अलग-अलग या सेटो में।"

[फा० सं० 459/138/77-सी० शु० V (पीटी)]

ए०सी० बक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1982

NO. 262/82-CUSTOMS

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 208/81-Customs dated the 22nd September, 1981, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(1) under the heading "A. Life saving drugs or medicines",—

(i) after item No. 32, the following item shall be inserted, namely :—

"32A. Clindamycin Injection.";

(ii) for item No. 46, the following item shall be substituted, namely :—

"46. Dispyramide Phosphate Injection/Capsules, Tablets.";

(iii) after item No. 57, the following item shall be inserted, namely :—

"57A. Inactivated Rabies Vaccine (Human Diploid Cell).";

iv) after item No. 73, the following item shall be inserted, namely :—

"73A. Measles Vaccine.";

v) after item No. 80, the following item shall be inserted, namely :—

"80A. Metrizamide vials with Diluent."

vi) after item No. 86: the following item shall be inserted, namely :—

86A Nifedipine Capsules.";

vii) after item No. 101 the following item shall be inserted, namely :—

"101A. Prozolin Tablets.";

viii) for item No. 118, the following item shall be substituted, namely :—

"118. Succinyl Choline Chloride/Bromide Injection.";

(ix) after item No. 122, the following item shall be inserted, namely :—

"122A. Timolol Meleate Eye Drops.";

(x) after item No. 125, the following item shall be inserted, namely :—

"125A. Urokinase Injection.";

) under the heading "B. Life saving equipments",—

) for item No. 5, the following item shall be substituted, namely :—

"5. Compressed Air Breathing Apparatus and other breathing equipments.";

(b) in item No. 8, in the opening portion, for the words "Haemodialyser and the following items, connected therewith :—", the following words shall be substituted, namely :—

"8. Haemodialyser and the following items for use therewith :—";

(c) items Nos. 15 and 35 shall be omitted;

(d) after item No. 22, the following item shall be inserted, namely :—

"22A. Ostomy Products (Appliances) for managing Colostomy, Ileostomy, Ureterostomy, Ileal Conduit Urostomy Stoma cases such as bags, belts, adhesive seals or discs or rolls adhesive remover, skin barriers micropore surgical tapes, bag closing clamps karaya seals paste or powder, irrigation sets, plastic or rubber faceplates, flanges, male or female urinary incontinency sets, skin gels, in parts or sets."

[F. No. 459/138/77-Cus. V(Pl.)]

A. C. BUCK, Under Secy.